



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1—नवम्बर 7, 2008 (कार्तिक 10, 1930)  
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1—NOVEMBER 7, 2008 (KARTIKA 10, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4

#### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

श्रम मंत्रालय  
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

हैदराबाद, दिनांक 25 सितम्बर 2008

सं. क.भ.नि.सं/अ.कॉ.आ/द.अं/जी.एल-240 ए/1(4) को अधिसूचना/2008/474- जैसा कि केन्द्रीय भ.नि.आयुक्त ने निम्नलिखित स्थापनाओं के संबंध में पाया है कि इन स्थापनाओं के नियोक्ता एवं अधिकतम कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंधों को उनके निम्न विभिन्न स्थापनाओं को लागू किए जाने हेतु सहमत हैं :—

क्रम सं.	कोड सं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति व सहमति की तिथि
1	2	3	4
1.	टीएन/सीबीई/73101	मैसर्स बालदेवदायुतपाणि स्वामी टेम्पल, कोयंबतूर	01.03.2007
2.	टीएन/सीबीई/73080	मैसर्स अरुलमिगु संगमेश्वरार टेम्पल, कोयंबतूर	01.03.2007
3.	टीएन/सीबीई/73063	मैसर्स अरुलमिगु पतीश्वरस्वामी तिरुक्कोइल, कोयंबतूर	01.03.2007
4.	टीएन/सीबीई/73055	मैसर्स अरुलमिगु वेल्लिंगिरि अंदवर तिरुक्कोइल, कोयंबतूर	01.03.2007
5.	टीएन/मदुरै/57823	मैसर्स नंबर वन एजन्सीस, बोडी	01.10.2006
6.	टीएन/मदुरै/57837	मैसर्स आरडी 36, अलगप्पा एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस एम्प्लॉईस को-ऑप थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लि., कराईकुडी	01.11.2006
7.	टीएन/मदुरै/58039	मैसर्स एस. सेलवम कंस्ट्रक्शन्स, ऑडिपट्टी तालुका	01.11.2007

1	2	3	4
8.	टीएन गद्दी 579918	मैसर्स श्री नमस्कार प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास	01.04.2007
9.	टीएन गद्दी 579961	मैसर्स रवि एजन्सी, मद्रास	01.05.2007
10.	टीएन गद्दी 579878	मैसर्स राम इंडस्ट्रीज, मद्रास	01.03.2007
11.	टीएन गद्दी 73180	मैसर्स अरुणाम्पु गति प्रमाण लिक्कोइल, उडुमलपेट	01.04.2007
12.	टीएन गद्दी 73182	मैसर्स अरुणाम्पु गति प्रमाण लिक्कोइल, महालिंगपुरम	01.04.2007
13.	टीएन गद्दी 73181	मैसर्स अरुणाम्पु गति प्रमाण लिक्कोइल, उडुमलपेट	01.04.2007
14.	टीएन गद्दी 73183	मैसर्स अरुणाम्पु गति प्रमाण लिक्कोइल, पोंलाची	01.04.2007
15.	टीएन गद्दी 44849	मैसर्स मधुचन्द्रलाल बालाजी एग्रिकल्चरल को-ऑप बैंक लि., मधुचन्द्रलाल	01.01.2007
16.	टीएन गद्दी 43531	मैसर्स श्री दुर्गा प्रोडक्शन्स, तिरुवरुर	01.02.2000
17.	टीएन गद्दी 44909	मैसर्स अरुणाम्पु गति प्रमाण लिक्कोइल अर्लागुडी	01.03.2006
18.	टीएन गद्दी 76021	मैसर्स रिविगाथर्स, अरुणाम्पु	01.07.2007
19.	टीएन गद्दी 44917	मैसर्स अरुणाम्पु गति प्रमाण लिक्कोइल, तिरुनागेश्वरम	01.05.2006
20.	टीएन गद्दी 42652	मैसर्स क्यू. 1213, गति प्रमाण लिक्कोइल प्राइमरी एग्रिकल्चरल को-ऑप बैंक, विरुनगरमई	01.01.2002
21.	टीएन गद्दी 42664	मैसर्स क्यू. 1216, गति प्रमाण लिक्कोइल प्राइमरी एग्रिकल्चरल को-ऑप बैंक, विरुनगरमई	01.03.2002
22.	टीएन गद्दी 579976	मैसर्स डॉ. सी. राम. विरुनगर प्राइमरी एग्रिकल्चरल को-ऑप बैंक, महालिंगपुरम	01.06.2007
23.	टीएन गद्दी 57938	मैसर्स आर. को. 8, गति प्रमाण लिक्कोइल प्राइमरी एग्रिकल्चरल को-ऑप बैंक, विरुनगरमई	01.11.2006
24.	टीएन गद्दी 70803	मैसर्स अरुणाम्पु गति प्रमाण लिक्कोइल, तिरुकोइल, पेन्नाडु	01.07.2007
25.	टीएन गद्दी 57618	मैसर्स अरुणाम्पु गति प्रमाण लिक्कोइल, कृष्णराय तैयलुलातेय, मद्रास	01.03.2006
26.	टीएन गद्दी 57616	मैसर्स अरुणाम्पु गति प्रमाण लिक्कोइल, अरुणाम्पु	01.02.2006
27.	टीएन गद्दी 57633	मैसर्स अरुणाम्पु गति प्रमाण लिक्कोइल, विरुनगरमई	01.02.2006
28.	टीएन गद्दी 57662	मैसर्स श्री वैराही मद्रास, मद्रास	01.05.2006
29.	टीएन गद्दी 57663	मैसर्स श्री अनुमा मद्रास, मद्रास	01.05.2006
30.	टीएन गद्दी 57728	मैसर्स अरुणाम्पु गति प्रमाण लिक्कोइल, विरुनगरमई	01.05.2006
31.	टीएन गद्दी 57963	मैसर्स अरुणाम्पु गति प्रमाण लिक्कोइल, विरुनगरमई	01.05.2007
32.	टीएन गद्दी 57824	मैसर्स श्री प्रोडक्शन्स, मद्रास, मद्रास	01.10.2006
33.	टीएन गद्दी 75086	मैसर्स कृष्ण प्रमाण लिक्कोइल को-ऑप बैंक इंदिरागुडि	01.06.2007
34.	टीएन गद्दी 73017	मैसर्स अरुणाम्पु गति प्रमाण लिक्कोइल, कुरुमल, कोयंबटूर	01.04.2007
35.	टीएन गद्दी 73081	मैसर्स अरुणाम्पु गति प्रमाण लिक्कोइल, मेरुपालम, कोयंबटूर	01.03.2007
36.	टीएन गद्दी 73042	मैसर्स अरुणाम्पु गति प्रमाण लिक्कोइल, मधुमली, कोयंबटूर	01.03.2007
37.	टीएन गद्दी 57891	मैसर्स डॉ. वि. प्रोडक्शन्स, मद्रास	01.04.2007
38.	टीएन गद्दी 57632	मैसर्स अरुणाम्पु गति प्रमाण लिक्कोइल, देवगंगा, कोयंबटूर	01.03.2006
39.	टीएन गद्दी 42676	मैसर्स डॉ. वि. प्रोडक्शन्स, मद्रास, मद्रास	01.12.2003
40.	टीएन गद्दी 75095	मैसर्स इंदिरागुडि लिक्कोइल को-ऑप बैंक, विरुनगरमई	01.06.2007

1	2	3	4
41.	टीएन/सीबीई/73347	मैसर्स अरुलमिगु कल्याण सुब्रमण्यस्वामी टेम्पल कुमारन कुंडु, कोयंबतूर	31.07.2007
42.	टीएन/सीबीई/73349	मैसर्स अरुलमिगु मरिअम्पन तिरुक्कोविल, कोयंबतूर	01.08.2007
43.	टीएन/सीबीई/73343	मैसर्स अरुलमिगु वेणुगोपालस्वामी टेम्पल, कोयंबतूर	01.07.2007
44.	टीएन/सीबीई/73425	मैसर्स अरुलमिगु वेंकटेशपेरुमाल टेम्पल, कोयंबतूर	01.08.2007
45.	टीएन/त्रिचो/44174	मैसर्स विजयपुरम प्राइमरी एग्रिकल्चरल को-ऑप बैंक लि., सुब्रमण्यपुरम पी ओ	01.01.2004
46.	टीएन/सेलम/70903	मैसर्स अरुलमिगु बालसुब्रमण्यस्वामी टेम्पल, वडचेन्निलै	01.11.2007
47.	टीएन/एएमबी/66104	मैसर्स अरुलमिगु तिरुवल्लुत्तीस्वरार टेम्पल, चेन्नै	01.03.2006
48.	टीएन/एएमबी/66406	मैसर्स हॉटी एग्री एंटरप्राइजेज, चेन्नै	01.03.2007
49.	टीएन/एएमबी/66500	मैसर्स विजय एन्विरो, चेन्नै	02.05.2007
50.	टीएन/एएमबी/66345	मैसर्स एसपी इनसिटु एंड अलाइड इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै	01.02.2007
51.	टीएन/वीएल/74117	मैसर्स अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी तिरुक्कोइल, तिरुतनी	01.03.2006
52.	टीएन/एएमबी/66673	मैसर्स सोपीजी इंडस्ट्रीज, अंबतूर	01.11.2007
53.	टीएन/एएमबी/66481	मैसर्स एम. आई. एल. कंट्रोलस, अंबतूर	02.05.2007
54.	टीएन/एएमबी/66603	मैसर्स स्काई मोटर्स, अंबतूर	01.09.2007
55.	टीएन/एएमबी/66635	मैसर्स देसरा इलेक्ट्रिक, अंबतूर	01.08.2007
56.	टीएन/एएमबी/66484	मैसर्स ब्रीज एंटरप्राइजेज प्रा. लि., अंबतूर	02.05.2007
57.	टीएन/एएमबी/66648	मैसर्स मल्सी सेक्युरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विसेस	15.11.2007
58.	टीएन/एएमबी/66613	मैसर्स हेवजोबा इलेक्ट्रिकल्स, अंबतूर	01.09.2007
59.	टीएन/एएमबी/66555	मैसर्स के. आई. के. इंजीनियरिंग कंपनी प्रा. लि., अंबतूर	01.07.2007
60.	टीएन/66471	मैसर्स हरसन सॉफ्ट सिस्टम्स, अंबतूर	01.04.2007
61.	टीएन/66591	मैसर्स फ्रोज इंडिया मैनुफैक्चरिंग प्रा. लि., अंबतूर	01.07.2007
62.	टीएन/66719	मैसर्स लिंडस्टॉर्म सर्विसेस इंडिया प्रा. लि., अंबतूर	01.12.2007
63.	टीएन/66721	मैसर्स आर. आर. कैब्स, अंबतूर	04.01.2008
64.	टीएन/66587	मैसर्स ब्लू स्टार एक्सपोर्ट्स, अंबतूर	01.07.2007
65.	टीएन/पीसी/1671	मैसर्स ग्लाइट एचवीएसी सिस्टम, पीडीचेरी	01.12.2007
66.	टीएन/सीबीई/73341	मैसर्स अरुलमिगु लक्ष्मी नरसिम्हा पेरुमल तिरुक्कोइल तलक्कराई	01.03.2007
67.	टीएन/त्रिचो/44922	मैसर्स अरुलमिगु मुलैवनंतस्वामी तिरुक्कोइल	01.03.2006
68.	टीएन/मदुरै/58013	मैसर्स श्री राजा इंजीनियरिंग कंट्रोलर, तेनी	01.09.2007
69.	टीएन/मदुरै/57982	मैसर्स मद्रास होलीण्ड मैनुफैक्चरिंग (इंडिया) प्रा. लि., मदुरै	01.07.2007
70.	टीएन/मदुरै/58074	मैसर्स एडो 41, कैलासंपट्टी मिल्क प्रोड्यूसर्स को-ऑप सोसाइटी, कैलासंपट्टी	01.01.2008
71.	टीएन/मदुरै/57009	मैसर्स एमडी 109, पी एण्ड टी एम्प्लाइज को-ऑप श्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसायटी लि., दिंडिगल जिला	01.02.2004
72.	टीएन/मदुरै/57482	मैसर्स सेंट मेरीस मैट्रिकुलेशन स्कूल, सस्तानगर	01.06.2005
73.	टीएन/मदुरै/58053	मैसर्स रत्ना एसोसियेट्स, मदुरै	01.12.2007

1	2	3	4
74.	दीएन मद्रु 57769	मैसर्स द पब्लिशिंग प्रेस प्रिन्टी चुरो, मद्रु	01.07.2006
75.	दीएन मद्रु 57893	मैसर्स विजय रेणु मद्रु	01.04.2007
76.	दीएन मद्रु 57907	मैसर्स सेल्फी एडवेंचर्स, तिरुमंगलम	01.04.2007
77.	दीएन मद्रु 57908	मैसर्स एम. जी. ग्रुप लि., तिरुमंगलम	01.04.2007
78.	दीएन मद्रु 58101	मैसर्स पीन सॉल्ट, तिरुमंगलम	01.07.2007
79.	दीएन पीसी 1678	मैसर्स अर्द्धशिवन मर्यादित पुन्य, पुदुचेरी	01.04.2008
80.	दीएन एमसी 66752	मैसर्स जी. के. 2018 का सचिवचरो एण्ड सोरनचरो प्राइमरी एडिक्शनन को-ऑप वैक, अंडलूर	02.01.2008
81.	दीएन एमसी 66701	मैसर्स फेडरल टेक्नोलॉजिज (पी) लि., अंडलूर	01.11.2007
82.	दीएन एमसी 74156	मैसर्स श्री नाथन सहाय एंडन एंड अल्लडाइट पैटर्न वर्क्स, वैल्लूर	01.05.2006
83.	दीएन एमसी 74213	मैसर्स वेस्टर्न इंडिया फिनिश लि., पालक्काड़ जिला	01.09.2006
84.	दीएन एमसी 74225	मैसर्स मैट जेम्स एडवेंचर्स मॉडियम स्कूल, पालक्काड़	01.01.2007
85.	दीएन एमसी 74491	मैसर्स एम.कृष्ण एडवेंचर्स, कण्णूर जिला	31.12.2007
86.	दीएन एमसी 74488	मैसर्स कालसेन एडवेंचर्स अर्द्धशिवन संचयन वितरण एडवेंचर्स, कण्णूर	01.12.2007
87.	दीएन एमसी 74725	मैसर्स मैट प्रोडियस एडवेंचर्स, कल्लूर, त्रिशूर	01.03.2007
88.	दीएन एमसी 74857	मैसर्स अर्द्धशिवन एडवेंचर्स प्रा. लि., पनमिल्ले नगर, कोच्ची	01.04.2007
89.	दीएन एमसी 74926	मैसर्स श्रीदेवी एडवेंचर्स, पालक्काड़	01.05.2007
90.	दीएन एमसी 75070	मैसर्स एर अर्द्धशिवन एडवेंचर्स असोसिएशन, कोच्ची	01.01.2007
91.	दीएन एमसी 75014	मैसर्स विजय एडवेंचर्स एडवेंचर्स, धामपुरली मुंदूर, त्रिशूर	01.09.2007
92.	दीएन एमसी 75015	मैसर्स जेम्स एडवेंचर्स प्रा. लि., पी. ओ. मुंदूर, त्रिशूर	01.09.2007
93.	दीएन एमसी 75016	मैसर्स पी.जे. एडवेंचर्स, त्रिशूर	01.09.2007
94.	दीएन एमसी 75115	मैसर्स विट्स सोलर एडवेंचर्स प्रा. लि., कल्लूर कोच्ची	01.12.2007
95.	दीएन एमसी 75497	मैसर्स विजय एडवेंचर्स एडवेंचर्स, उल्लवदान विपणन	01.02.2008
96.	दीएन एमसी 75834	मैसर्स इण्डियन एडवेंचर्स प्रा. लि., वेवला पी.ओ. कोच्ची	20.04.2007
97.	दीएन एमसी 76204	मैसर्स जेम्स एडवेंचर्स प्रा. लि., पल्लिवट्टोम, कोच्ची	01.03.2000
98.	दीएन एमसी 76258	मैसर्स कल्लूर एडवेंचर्स प्रा. लि., चिन्नूर रोड, कोच्ची	01.06.2000
99.	दीएन एमसी 76267	मैसर्स बृंदावन एडवेंचर्स प्रा. लि., बैंगलूर	01.12.2007
100.	दीएन एमसी 76859	मैसर्स निडगुडी एडवेंचर्स प्रा. लि., निडगुडी	01.08.1999
101.	दीएन एमसी 77416	मैसर्स एम.ए. एडवेंचर्स प्रा. लि., सोसाइटी लि., बैंगलूर	01.06.2007
102.	दीएन एमसी 78632	मैसर्स मुंदूर एडवेंचर्स प्रा. लि., सोसाइटी लि., बैंगलूर	01.01.2008
103.	दीएन एमसी 78696	मैसर्स एडवेंचर्स प्रा. लि., एडवेंचर्स प्रा. लि., बैंगलूर	01.07.2007
104.	दीएन एमसी 79334	मैसर्स एडवेंचर्स प्रा. लि., एडवेंचर्स प्रा. लि., बैंगलूर	01.01.2007
105.	दीएन एमसी 79348	मैसर्स गुडाम एडवेंचर्स प्रा. लि., गुडाम पी.ओ.	01.01.2007
106.	दीएन एमसी 79357	मैसर्स श्री लक्ष्मी एडवेंचर्स प्रा. लि., चेडिकहाल पी.	01.12.2006

1	2	3	4
107.	केएन/हुबली/40544	मैसर्स श्री सरस्वती को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी, बेलगाम	01.08.2007
108.	केएन/हुबली/17892	मैसर्स धारवाड़ तालुक एग्रिकल्चरल प्रोड्यूस को-ऑप मार्केटिंग सोसाइटी लि., धारवाड़	01.01.1999
109.	केएन/हुबली/17780	मैसर्स धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट जुडीशियल एम्प्लॉईस को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि., धारवाड़	01.10.1998
110.	केएन/हुबली/17951	मैसर्स के पी सी एम्प्लॉईस को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि., उत्तरकन्नडा	01.01.2000
111.	केएन/हुबली/40220	मैसर्स श्री महेश्वर क्रेडिट को-ऑप सोसाइटी लि., हावेरी	01.08.2006
112.	केएन/हुबली/40221	मैसर्स श्री महालक्ष्मी अर्बन को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि., हावेरी	01.08.2006
113.	केएन/हुबली/27817	मैसर्स श्री सिद्धेश्वर को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि., रायबाग पी ओ	01.01.2005
114.	केएन/हुबली/27995	मैसर्स श्री शिवाजी प्राथमिक कृषि पट्टिण सहकारी बैंक, भिर्डी पी ओ	01.08.2005
115.	केएन/हुबली/40009	मैसर्स आदर्श को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि., सौदती	01.09.2005
116.	केएन/मैसूर/36870	मैसर्स नं. 470 मल्टिपर्पज विमेन्स को-ऑप सोसाइटी लि., कुशालनगर	01.10.2007
117.	केएन/मैसूर/36872	मैसर्स शनिवारसंता को-ऑप बैंक लि., शनिवारसंती	05.10.2007
118.	केएन/मैसूर/36865	मैसर्स कॉम्पोजिटन क्लब, मडिकेरी	01.09.2007
119.	केएन/हुबली/40307	मैसर्स प्राथमिक कृषि पट्टिण सहकारी बैंक लि., मुरगुंडी	01.11.2006
120.	केएन/हुबली/40195	मैसर्स कर्नाटका को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि., बेलगाम	01.05.2006
121.	केएन/हुबली/40297	मैसर्स श्री भक्ति महिला को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी, बेलगाम	01.11.2006
122.	केएन/हुबली/40308	मैसर्स प्राथमिक कृषि पट्टिण सहकारी बैंक लि., नागनूर	01.11.2006
123.	केएन/हुबली/40100	मैसर्स श्री जगन्पति बसवेश्वर व्यवसाय सेवा सहकारी नियमित, भिराडी पी ओ	01.12.2005
124.	केएन/हुबली/27827	मैसर्स श्री सोमेश्वर को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि., भिराडी	01.02.2005
125.	केएन/मंगलूर/38440	मैसर्स अमतादी सर्विस को-ऑप बैंक लि., मोदनकापु पी ओ	01.10.2006
126.	केएन/हुबली/40103	मैसर्स प्राथमिक कृषि पट्टिण सहकारी बैंक नियमित, सौदती	07.10.2005
127.	केएन/हुबली/40096	मैसर्स महालक्ष्मी महिला को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी (एन) बेलगाम	01.01.2006
128.	केएन/हुबली/40102	मैसर्स प्राथमिक कृषि पट्टिण सहकारी बैंक नियमित सौदती	07.10.2005
129.	केएन/40030	मैसर्स ज्योति अर्बन को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि., सौदती	01.10.2005
130.	केएन/हुबली/27153	मैसर्स प्राथमिक कृषि पट्टिण सहकारी बैंक नियमित, कुत्राल तालुका	01.10.2001
131.	केएन/हुबली/40047	मैसर्स देवरशिगिहल्ली प्राथमिक कृषि पट्टिण सहकारी बैंक लि., देवरशिगिहल्ली, बेलहोंगल तालुका	01.10.2005
132.	केएन/हुबली/40395	मैसर्स चंद्रमा अरबैंक को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि., सौदती	01.03.2007
133.	केएन/हुबली/40394	मैसर्स नागनूर अरबैंक को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी लि., नागनूर	01.03.2007
134.	केएन/हुबली/40347	मैसर्स श्री बसवेश्वर अर्बन को-ऑप क्रेडिट सोसाइटी, यरगट्टी	15.03.2006
135.	केएन/हुबली/40421	मैसर्स इंटिग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सेंटर, नाड्डगल्लि	01.05.2007
136.	केएन/बेंगलूर/42280	मैसर्स ट्रोसेरा कम्युनिकेशन्स प्रा. लि., बेंगलूर	01.04.2007
137.	केएन/हुबली/40309	मैसर्स प्राथमिक कृषि पट्टिण सहकारी बैंक लि., अधणी	01.11.2006
138.	केएन/हुबली/40301	मैसर्स श्री बसवेश्वर क्रेडिट सौहार्द सहकारी लि., खानापुर	01.11.2006
139.	केएन/बेंगलूर/42494	मैसर्स श्री घाटी सुब्रमण्यस्वामी टेम्पल, बेंगलूर	01.07.2007

1	2	3	4
140.	कंपन संख्या 42346	मैसर्स मेक डेक वॉटरप्रूफिंग सिस्टम्स, बेंगलूर	01.06.2007
141.	कंपन संख्या 38442	मैसर्स आर्यु जेडएन पी एलसी ब्रेक लि.	01.11.2006
142.	कंपन संख्या 40335	मैसर्स पेगवैट रेजिस्ट्रार पीएम बेंगलूर	01.06.2007
143.	कंपन संख्या 38517	मैसर्स मल्लिकार्जुन रेड्डी इंजीनियरिंग, सुल्लिया	01.06.2007
144.	कंपन संख्या 40048	मैसर्स द कॉन्सल्टिंग एंड एंजिनिअरिंग प्रॉडिक्ट बैंक लि., कौञ्जलागो, मद्रास	01.11.2005
145.	कंपन संख्या 12-07	मैसर्स ब्रुडर अंड कोल्स (एन एल) बेंगलूर	01.06.2007

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 1 के उप-भाग (4) द्वारा उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अधिनियम विधि आयुक्त उक्त अधिनियम के उपबंधों का ऊपर उल्लिखित अधिनियमों को प्रत्येक स्थापना के नाम के साथ उल्लिखित तारीख से लागू करते हैं।

यू. नं. सिवारी

MINISTRY OF LABOUR  
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Hyderabad, the 25th September 2008

No. EPFO/ACC/SZ/GL-240A/Notfn. of 1(4)/2008/474—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name of the Establishment	Date of Coverage & Consent
1	2	3	4
1.	TN/CBE/73101	M/s. Baladhandayuthapani Swamy Temple, Coimbatore	01.03.2007
2.	TN/CBE/73080	M/s. Arulmigu Sangameswarar Temple, Coimbatore	01.03.2007
3.	TN/CBE/73063	M/s. Arulmigu Pateeswaraswamy Thirukoil, Coimbatore	01.03.2007
4.	TN/CBE/73055	M/s. Arulmigu Vellingiri Andavar Thirukoil, Coimbatore	01.03.2007
5.	TN/MDU/57823	M/s. No. One Agencies, Bodi	01.10.2006
6.	TN/MDU/57837	M/s. RD 36, Alagappa Educational Institutions Employees' Co-op. Thrift and Credit Society Ltd, Karaikudi	01.11.2006
7.	TN/MDU/58039	M/s. S. Selvam Constructions, Andipatti Tk.	01.11.2007
8.	TN/MDU/57918	M/s. Sri Saraswathi Crown Cork Industries, Madurai	01.04.2007
9.	TN/MDU/57961	M/s. Ravi Agency, Madurai	01.05.2007
10.	TN/MDU/57878	M/s. Ram Industries, Madurai	01.03.2007
11.	TN/CBE/73180	M/s. Arulmigu Mariamman Thirukkoi, Udumalpet	01.04.2007
12.	TN/CBE/73182	M/s. Arulmigu Sakthi Vinayagar Thirukkoi, Mahalingapuram	01.04.2007
13.	TN/CBE/73181	M/s. Arulmigu Kalliamman Thirukkoi, Udumalpet	01.04.2007
14.	TN/CBE/73183	M/s. Arulmigu Badrakalliamman Thirukkoi, Pollachu	01.04.2007
15.	TN/TRY/44849	M/s. Mannachanallur Primary Agricultural Co-op. Bank Ltd., Mannachanallur	01.01.2007
16.	TN/TRY/43531	M/s. Sri Durga Enterprises, Thiruvarur	01.02.2000
17.	TN/TRY/44909	M/s. Arulmigu Abath Sagayeswarar Thirukoil Alangudi	01.03.2006
18.	TN/TRY/76021	M/s. Trichirappalli Sri Ayyappa Sangham	01.07.2007
19.	TN/TRY/44917	M/s. Arulmigu Venkatachalapathi Swami Temple, Thirunageswaram	01.03.2006
20.	TN/MDU/42652	M/s. Q.1273, Pirapanvalasai Primary Agricultural Co-op. Bank, Pirapanvalasai	01.01.2002
21.	TN/MDU/42664	M/s. Q.1216, Katoorani PAC Bank Pattanam Kathan	01.03.2002
22.	TN/MDU/57976	M/s. DD 304, Ramalingapuram Primary Agricultural Co-op. Bank, Ramalingapuram	01.06.2007
23.	TN/MDU/57838	M/s. R.K.8, Viruthunagar Govt. Aided School Teachers and Non Teaching Staff Co-op. Thrift & Credit Society Ltd., Viruthunagar	01.11.2006
24.	TN/SLM/70803	M/s. Arulmigu Someswarar Prasanna Venkatramana Thirukkovi, Perundurai	01.07.2007
25.	TN/MDU/57618	M/s. Arulmigu Anjaneyar Thirukoil Krishnarayar Theppalula Theru, Madurai	01.03.2006
26.	TN/MDU/57636	M/s. Arulmigu Chockanathasamy Thirukoil, Aurppukkottai	01.02.2006
27.	TN/MDU/57638	M/s. Arulmigu Chockanathaswamy Thirukkoi, Viruthunagar	01.02.2006
28.	TN/MDU/57662	M/s. Sree Bairahi Madam, Madurai	01.03.2006

1	2	3	4
29.	TN MIDU 57662	M/s. Sree Arangan Koil, Madurai	01.03.2006
30.	TN MIDU 57728	M/s. Arulmigu Vengalugathamam Thirukoil, Viruthanagar	01.05.2006
31.	TN MIDU 57963	M/s. Arulmigu Chakkaniathasamy Temple, Viruthanagar	01.05.2007
32.	TN MIDU 57824	M/s. Sharp Security Service, Madurai	01.10.2006
33.	TN FI 75086	M/s. Kuttan Primary Agricultural Co-op. Bank, Idyanampadi	01.06.2007
34.	TN CBE 73047	M/s. Arulmigu Vannanathaswamy Temple, Karamadai, Coimbatore	01.04.2007
35.	TN CBE 73081	M/s. Arulmigu Vannandhakhamman Thirukoil, Mettupalayam, Coimbatore	01.03.2007
36.	TN CBE 73304	M/s. Arulmigu Subramaniaswamy Thirukoil, Marudhamalai, Coimbatore	01.03.2007
37.	TN MIDU 57891	M/s. India Lubricants, Madurai	01.04.2007
38.	TN MIDU 57632	M/s. Arulmigu Meenakalai Kamatchi Amman Thirukoil, Devadanampatti	01.03.2006
39.	TN MIDU 49976	M/s. Hotel Arya Bhavan, Aranmanai Vasal, Sivaganai	01.12.2006
40.	TN FI 5808	M/s. Sundanagar Milk Producers Co-op. Society Ltd., Tirunelveli	01.06.2007
41.	TN CBE 73347	M/s. Arulmigu Kalyana Subramania Swamy Temple, Kanneran Kundu, Coimbatore	31.07.2007
42.	TN CBE 73349	M/s. Arulmigu Marudhaman Thirukovil, Coimbatore	01.08.2007
43.	TN CBE 73343	M/s. Arulmigu Venugopalasamy Temple, Coimbatore	01.07.2007
44.	TN CBE 73425	M/s. Arulmigu Venkatesha Perumal Temple, Coimbatore	01.08.2007
45.	TN TRY 44174	M/s. Vijayapuri Primary Agricultural Co-op. Bank Ltd., Subramaniapuram PO	01.01.2004
46.	TN STM 70003	M/s. Arulmigu Balasubramania Swamy Temple, Vadachennamalai	01.11.2007
47.	TN AMB 66104	M/s. Arulmigu Thiruvallabeswarer Temple, Chennai	01.03.2006
48.	TN AMB 66406	M/s. Horti Agro Enterprises, Chennai	01.03.2007
49.	TN AMB 66500	M/s. Vijay Envars, Chennai	02.05.2007
50.	TN AMB 66345	M/s. SP Instn & Allied Engineering Services Private Limited, Chennai	01.02.2007
51.	TN VI 74117	M/s. Arulmigu Subramaniaswamy Thirukkoil, Tirunam	01.03.2006
52.	TN AMB 66673	M/s. CPG Industries, Ambattur	01.11.2007
53.	TN AMB 66481	M/s. M.I.T. Comers, Ambattur	02.05.2007
54.	TN AMB 66603	M/s. Sky Motors, Ambattur	01.09.2007
55.	TN AMB 66635	M/s. Desra Electric, Ambattur	01.08.2007
56.	TN AMB 66484	M/s. Bizee Enterprises Private Limited, Ambattur	02.05.2007
57.	TN AMB 66648	M/s. Math Security and Detective Services,	15.11.2007
58.	TN AMB 66613	M/s. Hebbizibin Electricals, Ambattur	01.09.2007
59.	TN AMB 66555	M/s. K.L.K. Engineering Company Private Ltd., Ambattur	01.07.2007
60.	TN 66471	M/s. Harsan Soft Systems, Ambattur	01.04.2007
61.	TN 66891	M/s. Freeze India Manufacturing Pvt. Ltd., Ambattur	01.07.2007
62.	TN 66119	M/s. Lindstrom Services India Private Limited, Ambattur	01.12.2007
63.	TN 66771	M/s. R. R. CAMS, Ambattur	04.01.2008
64.	TN 66587	M/s. Blue Star Sports, Ambattur	01.07.2007
65.	TN PC 1671	M/s. Elite HVM System, Pondicherry	01.12.2007
66.	TN CBE 73343	M/s. Arulmigu Lakshmi Narasimha Perumal Thirukoil, Thalakkurath	01.03.2007
67.	TN TRY 44922	M/s. Arulmigu Mullarvananathaswamy Thirukoil	01.03.2006



1	2	3	4
68.	TN/MDU/58013	M/s. Sri Raja Engineering Contractor, Theni	01.09.2007
69.	TN/MDU/57982	M/s. Madras Holland Manufacturing (India) Pvt. Ltd., Madurai	01.07.2007
70.	TN/MDU/58074	M/s. AD41, Kailasampatti Milk Producers Co-op. Society, Kailasampatti	01.01.2008
71.	TN/MDU/57009	MD109, P&T Employees Co-op. Thrift & Credit Society Ltd. Dindigul District	01.02.2004
72.	TN/MDU/57482	M/s. St. Mary's Matriculation School, Sasthanagar	01.06.2005
73.	TN/MDU/58053	M/s. Rathna Associates, Madurai	01.12.2007
74.	TN/MDU/57769	M/s. The Pioneer Security Bureau, Madurai	01.07.2006
75.	TN/MDU/57893	M/s. Vijay Gas, Madurai	01.04.2007
76.	TN/MDU/57907	M/s. Selvi Agencies, Tirumanglam	01.04.2007
77.	TN/MDU/57908	M/s. M. G. Brush Company, Tirumanglam	01.04.2007
78.	TN/TF/75101	Mrs. Pon Salt, Tuticorin	01.07.2007
79.	TN/PC/1678	M/s. Clarion Machine Tools, Puducherry	01.01.2008
80.	TN/AMB/66752	M/s. G.K.208, Kolappan Cheri & Sorancheri Primary Agricultural Co-op Bank, Ambattur	02.01.2008
81.	TN/AMB/66701	M/s. Fatsun Technologies (P) Ltd., Ambattur	01.11.2007
82.	TN/VLR/74156	M/s. Sri Gayathri Patterns, Wooden and Araldite Pattern Works, Vellore	01.05.2006
83.	KR/KK/23213	M/s. Western India Kinfra Ltd., Palakkad Dist.	01.09.2006
84.	KR/KK/23275	M/s. St. Joseph's English Medium School, Palakkad	01.01.2007
85.	KR/KNR/18491	M/s. Ramakrishna Saw Mill, Kannur Dist.	31.12.2007
86.	KR/KNR/18488	M/s. Thalassery Municipality Karshikolpadana Sambaran Vitharan Sahakarana Sangam, Kannur	01.12.2007
87.	KR/KC/21725	M/s. St. Francis Ceramics, Kallur, Trichur	01.03.2007
88.	KC/21857	M/s. Ashwin Enterprises Pvt. Ltd., Panampillay Nagar, Kochi	01.04.2007
89.	KK/23326	M/s. Sree Devi Rice Industries, Palakkad	01.05.2007
90.	KC/21630	M/s. Mar Oshatheos Clerical Association, Kochi	01.01.2007
91.	KC/24014	M/s. Winner Rubber Products, Arampully Mundur, Trichur	01.09.2007
92.	KC/24015	M/s. Gemco Rubber (P) Ltd., P.O. Mundur, Trichur	01.09.2007
93.	KC/24016	M/s. Power Treads, Arampully, Trichur	01.09.2007
94.	KC/24115	M/s. Vintes Solutions (Pvt.) Ltd., Kaloor, Kochi	01.12.2007
95.	KNR/18497	M/s. Sahakarana Sangam, Kannur	01.02.2008
96.	KC/21834	M/s. Indroyal Hotels (P) Ltd., Vennala PO, Kochi	20.04.2007
97.	KC/19204	M/s. Jaz Auto (P) Ltd., Palarivattom, Kochi	01.03.2000
98.	KC/19258	M/s. Colortone Process (P) Ltd., Chittoor Road, Kochi	01.06.2000
99.	KN/BNG/42767	M/s. Brindavan Screen Traders, Bangalore	01.12.2007
100.	KN/HBL/17889	M/s. Nidagundi Vyavasaya Seva Sahakari Bank, Nidagundi	01.08.1999
101.	KN/BNG/42416	M/s. Kamman Credit Co-op. Society Ltd., Bangalore	01.06.2007
102.	KN/MNG/38632	M/s. Mundur Milk Producer Co-op. Society Ltd., Mangalore	01.01.2008
103.	KN/BNG/42396	M/s. Difacto Robotics and Automation (P) Ltd., Bangalore	01.07.2007
104.	KN/HBL/40334	M/s. Rampur Vyavasaya Seva Sahakara Sangha Niyamita, Rampur Ro.	01.01.2007
105.	KN/HBL/40348	M/s. Gudas Prathamika Krishi Pattina Sahakari Bank Ltd., Gudas PO	01.01.2007
106.	KN/HBL/40337	M/s. Shri Laxmi Credit Souhard Sahakari Ltd., Bedkihal	01.12.2006
107.	KN/HBL/40544	M/s. Shri Saraswathi Co-op. Credit Society, Belgaum	01.08.2007
108.	KN/HBL/17892	M/s. Dharwad Taluk Agricultural Produce Co-op. Marketing Society Ltd., Dharwad	01.01.1999
109.	KN/HBL/17780	M/s. Dharwad District Judicial Employees' Co-op. Credit Society Ltd., Dharwad	01.10.1998
110.	KN/HBL/17951	M/s. K. P. C. Employees' Co-op. Credit Society Ltd., Uttarkannada	01.01.2000

	1	2	3	4
111.	KN.HB31-45239	M.s. Sri Mahasaraksh Co-op. Society Ltd., Havari	01.08.2006	
112.	KN.HB31-40791	M.s. Sri Mahasaraksh Co-op. Credit Society Ltd., Havari	01.08.2006	
113.	KN.HB31-7783	M.s. Sri Siddheshwari Co-op. Credit Society Ltd., Raibaru	01.01.2005	
114.	KN.HB31-77799	M.s. Sri Sivani Patil Bank Krishi Pattana Sahakari Bank Ltd., PPO	01.08.2005	
115.	KN.HB31-40000	M.s. Adarsh Co-op. Credit Society Ltd., Sonndatti	01.09.2005	
116.	KN.MYS-36870	M.s. No.470 Mahasaraksh Wignen's Co-op. Society Ltd., Kusnabagar	01.10.2007	
117.	KN.MYS-36872	M.s. Shadavara Co-op. Bank Ltd., Shanivarasanna	05.10.2007	
118.	KN.MYS-36868	M.s. Cosmopolitan Co-op. Madikeri	01.09.2007	
119.	KN.HB31-40007	M.s. Prathamik Bank Pattana Sahakari Bank Ltd., Mudaluru PPO	01.11.2006	
120.	KN.HB31-40005	M.s. Karnataka Co-op. Credit Society Ltd., Belgum	01.05.2006	
121.	KN.HB31-40000	M.s. Shree Bhakti Kanda Co-op. Credit Society, Belgum	01.11.2006	
122.	KN.HB31-40008	M.s. Prathamika Bank Pattana Sahakari Bank Ltd., Nagur	01.11.2006	
123.	KN.HB31-40000	M.s. Sri Jagadgurur Vaseshwara Vyavasaya Seva Sahakari Sangha Niyamita, Bhimadurga	01.12.2005	
124.	KN.HB31-40007	M.s. Shree Sunand Co-op. Credit Society Ltd., Bantur PPO	01.02.2005	
125.	KN.MNO-38420	M.s. Anuradha Co-op. Bank Ltd., Molankapu PPO	01.10.2006	
126.	KN.HB31-40003	M.s. Prathamika Bank Pattana Sahakari Bank Ltd., Savadurga	07.10.2005	
127.	KN.HB31-40006	M.s. Mahalaxmi Co-op. Co-op. Credit Society (N), Belyur	01.01.2006	
128.	KN.HB31-40000	M.s. Prathamik Bank Pattana Sahakari Bank Niyamita, Savadurga	07.10.2005	
129.	KN.HB31-40000	M.s. Jyoti Urban Co-op. Credit Society Ltd., Soundatti	01.10.2005	
130.	KN.HB31-27053	M.s. Prathamika Bank Pattana Sahakari Bank Niyamita, Kundal IQ	01.10.2001	
131.	KN.HB31-27054	M.s. Devanahagudi Prathamik Krishi Pattana Sahakari Bank Ltd., Devanahagudi, By. Pongal IQ	01.10.2005	
132.	KN.HB31-40007	M.s. Chandrababu Bank Co-op. Credit Society Ltd., Sonndatti	01.03.2007	
133.	KN.HB31-40002	M.s. Nagamoor Co-op. Co-op. Credit Society Ltd., Nagamoor	01.03.2007	
134.	KN.HB31-40004	M.s. Sri Basaveshwari Urban Co-op. Credit Society, Yalagudi	15.03.2006	
135.	KN.HB31-40023	M.s. Integrated Rural Development Centre, Nadudurga	01.05.2007	
136.	KN.BNO-42190	M.s. Transnet Communications Pvt. Ltd., Bangalore	01.04.2007	
137.	KN.HB31-40000	M.s. Prathamika Bank Pattana Sahakari Bank Ltd., Adur PPO	01.11.2006	
138.	KN.HB31-40007	M.s. Sri Basaveshwari Credit Souharda Sahakari Bank Ltd., Channarayana	01.11.2006	
139.	KN.BNO-42004	M.s. Sri Ghatasrathi Temple Swamy Temple, Bangalore	01.07.2007	
140.	KN.BNO-44113	M.s. Mac Telecom Software Systems, Bangalore	01.06.2007	
141.	KN.MNO-38402	M.s. Aayappa Co-op. Seva Sahakari Bank Ltd.	01.11.2006	
142.	KN.BNO-40008	M.s. Megastar Co-op. Co-op. Co-op. Bangalore	01.06.2007	
143.	KN.MNO-38517	M.s. Meelika Co-op. Co-op. Co-op. Sullia	01.06.2007	
144.	KN.HB31-40008	M.s. The Karnataka Co-op. Credit Bank Ltd., Kundal Co-op. Bank	01.11.2005	
145.	KN.BNO-42107	M.s. Shivalaya Co-op. Credit (R), Bangalore	01.06.2007	

145. Now, direct the Commissioner of the general land office to apply the provisions of the above mentioned act to the above mentioned estate, and with effect from the date mentioned in the name of each of the children.

U. C. ILWACO  
U. C. Board of Land & Park Commissioners (SZ)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रमाणित करने वाले का नाम, पता और  
सहस्रकृत प्रमाणित करने वाले द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रमाणित करने वाले का नाम, पता और  
प्रमाणित करने वाले का नाम, पता और सहस्रकृत प्रमाणित करने वाले द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रमाणित करने वाले का नाम, पता और  
प्रमाणित करने वाले का नाम, पता और सहस्रकृत प्रमाणित करने वाले द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रमाणित करने वाले का नाम, पता और